



Date: 21/12/2022

To,	To,
The Manager,	Listing Department,
Listing & Compliance, BSE Limited	National Stock Exchange of India
Phiroze Jeejeebhoy Towers,	Limited,
Dalal Street, Mumbai - 400 001.	C-1, G-Block, Bandra-Kurla
	Complex Bandra (E), Mumbai -
	400 051
Ref: Scrip Code - 540393	Ref: Scrip Symbol - SMLT

Sub: Newspaper advertisement for Intimation of Interim Dividend Record Date.

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, please find enclosed herewith the copies of notice of Record Date for Interim Dividend, published in the following news papers:

- 1. The Economic Times (National daily newspaper Mumbai English Edition), on 21st December, 2022
- 2. Shram bindu (Regional Daily newspaper Hindi Edition), on 21st December, 2022

This for your information and record.

Please find enclosed herewith a copy of the paper cuttings of the same.

Thanking You, Yours faithfully, For Sarthak Metals Limited

Pratik Jain Company Secretary & Compliance Officer

Encl. As above

Head Office:

BBC Colony, G.E. Road, P.O.: Khursipar, Bhilai - 490 011 (C.G.)

Contact :+91 91 1101 5041 Landline :+91 788 2296495, 2296499

Telefax : +91 788 2225874 E-mail: info@sarthakmetals.com Works:

17 - N, Heavy Industrial Area, hathkhoj, Bhilai - 490 026 (C.G.) Contact: +91 91 1101 5042

Web: www.sarthakmetals.com



THE ECONOMIC TIMES BUSINESS OF SPORTS **PODCAST**

Of Millions & Mind Games



Pad up for a masterclass in the strategies employed in the IPL auction bidding process, a look at what really goes on behind the scenes, and the intense boiler room pressure on A-Day

Tune in to ETPlay.com. Also available on EconomicTimes.com/podcast, Amazon Prime Music, Apple Podcasts, JioSaavn and Spotify.

Railways to Start **GPS Tagging of** 300,000 Wagons

Twesh.Mishra@timesgroup.com

New Delhi: The Indian Railways is set to initiate Global Positioning System (GPS) tracking of each of its nearly 300,000 wagons under a plan to prevent pilferages on the national transporter. As part of the Wagon GPS (WGPS) Project, the

Centre for Railway Information Systems (CRIS) has invited expressions of interest for participa ting in knowledge gathering exercise for the determination of location on-run of the freight wagons of Indian Railways



Officials said instances of wagons' and theft of goods long-standing

using Satellite Navigation System. Officials said instances of "mis sing wagons" and theft of goods from open wagons have been a longstanding concern of the railways This leads to disputes with entities that use the railways network for freight transport. Even when goods trains cross the Indian borders there have been cases where their return to the country is delayed.

While instances of wagons go ing missing are rare, considering the volume of goods movement on the railways, they have been significant enough to raise concerns. In August, ET had repor-

ted one such instance where 8,000 tonnes of coal rejects from Jharkhand ended up in MP. In July 2018, it was reported that the railways delivered a fertiliser-loaded wagon booked in Visakhapat nam for delivery in Basti in four years. This consignment was part of a 21-wagon rake. While 20 wagons reached, one was presumed "lost".

"WGPS Project has been sanctioned for pinpoin ting the exact location of freight wagons on the run, in operation for better transportation and operational planning, including gaining insights into freight movement for planning of future ope rations," a senior railways ministry official told ET on condition of anonymity.

Our Bureau

ment to ensure periodic au-

dits of Special Economic Zo-

It also asked the customs de-

partment to ramp up its IT

systems to track, monitor

submission and renewal of

solvency certificates, duty bond and bank guarantee,

In a report tabled in Parlia-

ment on Tuesday, the CAG

pointed out several shortco-

mings in the current digital

record keeping framework

for customs bonded wareho-

uses and said the warehouses are not maintaining the

records in prescribed elec-

tronic formats.

and risk insurance policy.

nes (SEZs) are conducted.

ed the customs depart

CAG Asks Customs Dept to

Ensure Periodic Audit of SEZs

New Delhi: The Comptroller the reconciliation and moni-

and Auditor General (CAG) toring of monthly returns

PNGRB Wants Petroleum Product Pipelines Too Within Its Ambit

Move to help determine tariff, facilitate non-discriminatory third-party access to oil PSU assets

Sanjeev.Choudhary @timesgroup.com

New Delhi: The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) has undertaken a vital exercise to bring all petroleum product pipelines under its ambit. which will help determine their tariff and facilitate non-discriminatory third-party access to public

product pipelines can dramatically increase private fuel retailers' abiend consumers, people familiar

petroleum and natural gas pipelines, but the focus so far has been only on gas pipelines. The regulator is now trying to enforce the law on petroleum products pipelines as well. In a letter earlier this month to Indian Oil, HPCL, and BPCL, the regu-

SOCIAL PROGRESS INDEX

New Delhi: Puducherry, Lakshad-

weep, and Goa have emerged as top

three performers among all states

and union territories in India in the

Social Progress Index while Jhark-

hand and Rihar stood at the bottom

of the index, according to a report

mandated by the Economic Adviso-

ry Council to the Prime Minister

As per the report, prepared by the

Institute for Competitiveness and

the Social Progress Imperative, Ai-

......

Delhi Wheat Prices

Touch Record High

Pune: Wheat prices in the

benchmark Delhi market

touched a record high level

of ₹2,915/quintal in the opening trade Tuesday morning as stock position is be-

Wheat prices had declined

by close to 1% within a day

in the previous week on ru-

mours that the government

may sell wheat in the open


-Jayashree Bhosale

coming tight.

In Consumers' Interest Cos must seek By bringing product regulator's licence for pipelines into its ambit, laying new pipelines:

PNGRB Regulator has sought details of product pipelines from Indian Oil, HPCL, BPCL

from govt not sufficient for new pipelines **PNGRB** act doesn't recognise pipelines for



tor for laying pipelines. 'Obtaining Right of User notification through ministry of petroleum & natural gas shall not fulfil the requirement of authorisation from PNGRB for laying of the pipeline," it said. "Laving of any cross-country pipeline without PNGRB's authorisation... shall attract penal provisions." The regulator also pointed out that the oil companies' reference to their pipelines as "captive" didn't have any legal backing and that the PNGRB Act recognised only three types of pipelines: common carrier, contract carrier, and a dedicated pipeline laid to supply petroleum product to a specific consumer.

pleasure at public sector compani-

es' practice of bypassing the regula-

Non-discriminatory third-party access can be ensured only after the regulator has information on all pi pelines and their tariff is determi ned, people familiar with the matter said. Pipelines with no spare capacity may not be forced to offer third-party access but those with spare capacity will be, they said.

Fitch Affirms India at **BBB-, Outlook Stable**

Our Bureau

New Delhi: Fitch Ratings Tuesday affirmed India's sovereign credit rating at 'BBB-' with stable outlook, saying the country's rating reflected strengths from a robust growth outlook and resilient external finances that have supported it in navigating the large exter-

nal shocks in the past year. Fitch expects the government to push ahead with fiscal consolidation and forecast FY24 deficit target to be set at 6.0% of GDP in the upcoming budget.

It expects a modest fiscal slippage in FY23 with a deficit of 6.6% of GDP (including disinvestment) relative the 6.4% budget target due to higher food and fertiliser subsidies, but revenue growth and expenditure switching will contain the measures' fiscal toll while allowing capital spending to remain a priority

The general government deficit has receded from its pandemic high of 13.5% of GDP (excluding disinvestment) but is forecast to remain large compared to peers. The rating agency expects the country's deficit to gradually decline to 9.2% of GDP in FY24 and 8.7% in FY25 on the back of continued declines in central gov

ernment deficits. "We forecast the central government to set a 6.0% of GDP deficit target in its upcoming budget and to retain its 4.5% FY26 target, though we believe this may

be difficult to achieve," it

said, adding fiscal pressures could arise from upcoming national elections in May 2024, but the in-

Fitch had in cumbent June upgraded the outlook to government's dom stable from inant politinegative while cal position keeping the likely limits

these risks. Fitch had in June upgraded the outlook to stable from negative while keeping the rating unchanged. Fitch forecast FY23 growth at 7.0% on sustained consumption and investment recoveries. "India is somewhat insulated from the gloomy global outlook in 2023, given its modest re-

liance on external de

GOOD SAVINGS IN GREEN POWER GROUP CAPTIVE/THIRD PARTY **CUSTOMERS INTERESTED IN BUYING POWER** FROM WIND POWER PROJECT.

Please Contact: - 9172070036,9503080816

INDORE-BENCH ORIGINAL JURISDICTION. In the matter of The Companies Act, 1956

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH,

AND In the matter of:-M/s. Shree Sajjan Mills Ltd. (In- Liqn.) Regd. Off:- Dhamnod Road, Ratlam (M.P.)-457001

Company Petition No. 20/2009 Notice of Winding-Up order

By an order made by the High Court of M.P., Indore Bench in the above matter, dated the 26th day of September, 2022. it was ordered that the above named company be wound up under the provisions of the Companies Act, 1956.

Dated:- 20/12/2022

(VYOMESH SHETH) OFFICIAL LIQUIDATOR (I.C.) HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, INDORE 1st Floor, Old CIA Building, Opp.GPO, Residency Area, Indore (M.P.)

RBL BANK LTD. RBLBANK Registered Office: 1st Lane, Shahupuri, Kolhapur-416001

Corporate Office: One World Centre, Tower 2B, 20th Floor, 841 Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai 400 013

CORRIGENDUM TO E-AUCTION SALE NOTICE (For sale of secured assets of JSK Distributions LLP)

This is to inform the public at large by this corrigendum to the E-Auction sal notice published by the undersigned in English newspaper namely. Times o India, Economic Times and Free Press Journal and Marathi newspaper i.e. Navshakti on 20th December, 2022 ("E-Auction Sale Notice"), the text "STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER THE SARFAESI ACT AND RULES "should be read as "STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER THE SARFAESI ACT AND RULES "as if the same was incorporated in the said E-Auction notice at the time of its publication. Resi of the contents of the E-Auction Sale Notice published on 20th Decembe

Note that the E-Auction shall be conducted on 09th January 2023, and the intending bidders must submit their bid along with documents on or before 06th January 2023 by 4.00 p.m. as detailed in the E-Auction Sale Notice. For more E-Auction related details and terms and conditions please visit Website: https://www.bankeauctions.com and https://www.rblbank.com/ pdf-pages/news which forms part and parcel

2022 shall remain unchanged, save and except to the extent herein above

Date: 21st December 2022 Place: Mumba

Akbar Panjwani **Authorised Office** RBL Bank Ltd.

/lumbai – 400 067

ajanta pharma limited

NOTICE

For transfer of equity shares of the Company to Investor **Education and Protection Fund (IEPF)**

As per the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules. 2016 ("the Rules") and amendments thereto, all the shares in respect of which dividend has not beer claimed by the shareholders for seven consecutive years or more shall be

The Company has communicated to the concerned shareholders ("Concerned Shareholders") individually whose shares are liable to be transferred to IEPF from the year 2015-16 onwards and the full details of such shareholders including their folio number or DP ID/Client ID are also made available on its vebsite www.ajantapharma.com

In case the Company does not receive any communication from the Concerned Shareholders by $31^{\rm st}$ March 2023, the Company shall with a view to adhering with the requirements of the Rules, transfer the shares to the IEPF by following below mentioned process

In case shares are held:

• In physical form - Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF as per the Rules and upon such issue, the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificates into DEMAT form and transfer in favour of IEPF. The original share certificate(s) which are registered in the name of Concerned Shareholders will stand automatically cancelled and be deemed non

In demat form - Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares in favour of the DEMAT account of the IEPF. Consequent thereto, no claim shall lie against the Company in respect of such

unclaimed dividend and underlying shares. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded as and shall be deemed to be adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s) by the Company fo

the purpose of transfer of shares to IEPF Authority pursuant to the Rules. Concerned Shareholders may note that both the unclaimed dividend and shares due for transfer to IEPF Authority can be claimed back from IEPF Authority after following the procedure prescribed under the Rules.

For any queries on the above matter, Shareholders are requested to contact the Company's Registrar & Share Transfer Agents, Link Intime India Private Limited, Unit: Ajanta Pharma Limited, C 101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli West, Mumbai - 400 083. Tel no: +91 022 49186000 email ID: iepf.shares@linkintime.co.in

For Ajanta Pharma Limited

Mumbai, India Gaurang Shah VP-Legal & Company Secretary

The CAG said the finance ministry must ensure that a mechanism for internal audit and inspection of customs bonded warehouses is implemented immediately.

It said if details of the goods

removed from warehouses

are not maintained properly,

"Therefore, the department

is not in a position to ensure

whether the correct duty and

cord have a control," said the

report. The CAG has sugges-

ted that digital record kee-

ping controls be tightened

and streamlined.

interest are pa-

id or the cor-

rect bond and

bank guaran-

tee are availab-

le through re-

MUNICIPAL CORPORATION OF GREATER MUMBAI

LEGAL DEPARTMENT

3rd Floor, Legal Department, Annex Building, Municipal Corporation of Gr. Mumbai, Mahapalik Marg, Fort, Mumbai-400 001.

CORRIGENDUM -1

Sub. Inviting Expression of Interest (E.O.I.) from renowned Legal Firms having expertise in Company Law matters in respect of Seven Hills Health Care Pvt. Ltd. V/s. BMC about Seven Hills Hospital (Public Private Partnership Project of BMC).

Ref.: 1) LO/LOP/039649/LO dt.13.12.2022.

2) PRO/2250/Adv/2022-23.

BMC had invited Expression of Interest (E.O.I.) from renowned Legal Firms having expertise in Company Law matters in respect of Seven Hills Health Care Pvt. Ltd. V/s. BMC about Seven Hills Hospital (Public Private Partnership Project of BMC). The said Expression of Interest was published on

14.12.2022 in following Newspapers. 1) Times of India

2) Economic Times English 3) Indian Express 4) Loksatta

5) Maharashtra Times - Marathi Pursuant to the sanction granted by D.M.C. (P.H.) under No.DMC/PH/1780 dt.20.12.2022, the bid submission end date is extended upto 24.12.2022 till 18.00 p.m. and simultaneously the bid opening date is also extended to 26.12.2022 at 13.00 p.m.

Sr. No. **Critical Dates** Date Time Document Download Start 14.12.2022 10.00 a.m. Document Download End 24.12.2022 18.00 p.m. Date Bid Submission Start Date 14.12.2022 10.00 a.m. 24.12.2022 18.00 p.m. Bid Submission End Date

Schedule

Bid Opening Date Sd/-(Sunil K. Sonawane)

(Shri. Sanjay Kurhade) D.M.C. (P.H.)

Advocate & Law Officer PRO/2250/ADV/2022-23/Corrigendum-1 स्वमर्जीने औषधोपचार करु नका.

26.12.2022 | 13.00 p.m.

sector oil companies' pipelines. Access to state-run companies' lity to serve new markets across the country, increasing competition in the fuel business and benefitting with the matter said. The PNGRB Act of 2006 covers all

"captive" use lator sought details of all their operational as well as under-construc-

tion petroleum product pipelines. 'The intent of bringing such pipe lines under the ambit of PNGRB is to protect the interest of consumers by fostering fair trade and competi-

Progress Report

EAC-PM releases Social

Progress Index

Jharkhand, Bihar

Parameters

& opportunity

49 for districts

worst performers

Basic human needs.

foundations of well-being

89 indicators for states and

tion amongst the entities by determining transportation tariff, providing non-discriminatory third-party access and monitoring of compliance of technical and safety standards," the regulator said in its

PNGRB wants to protect

consumer interest

letter, which also displayed its dis-

Puducherry, Lakshadweep and Goa Top Performers

> three best-performing districts. The report has not made a distinction between states and UTs while assessing their performance and has classified even UTs as states.

Pradesh and Shimla in Himachal

Pradesh have emerged as the top

SPI has assessed the performance of states and districts on three dimensions of social progress, namely basic human needs, foundations of well being and opportunity. The ranking of states and districts is based on 12 components across three critical dimensions with 89 indicators at

zawl in Mizoram, Solan in Himachal the state level and 49 at the district level. SPI is a comprehensive tool intended to be a holistic measure of the social progress made at the national and sub-national levels. Understanding that the social progress of citizens is key to sustaining economic growth in the long run, the index complements the conventional measures of economic growth and development, EAC-PM said. As per the report, Puducherry has the highest SPI score of 65.99 on the remarkable performance across components like personal freedom and choice, shelter, and water and sanitation



Course Content: Company Accounts, Transaction and Preparation of all Types of Books of Accounts, BRS Different Types of Adjustments, Final Accounts preparation, Cash Flow, Payroll, Form 16, 6ST Accounting, With Payment Procedure, Personal Balance Sheet, Manufacturing & Stock Accounts, Back Calculation & Ratio Analysis, Banking & Finance, Rules, Transaction(RTGS/NEFT), Ferm Loan 0D Loan etc., Audit rules, Tax Practice and Procedures, Income Tax, E-fining, E-TDS, Certificate, Refunds and Reliefs, Professional Tax, PF, ESI Calculations, E-filing on Portal, Tally EFP Overview, Company Law and Statutory Legislation, Incorporation, Share Capital MOAA, ROC Matter, How to Maintain various Statutory Books... More

SARTHAK METALS LIMITED Corporate Identity Number: L51102CT1995PLC009772 Registered Office: B.B.C Colony, G. E. Road, Khursipar, Bhilai - 490011, Chhatisgarh, India

Website: www.sarthakmetals.com E-mail: cs@sarthakmetals.com Contact No. +91-9303773708 Pursuant to Regulation 30, 42 and 43 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, we wish to inform you that the Board of Directors of the Company at their meeting held on 20th December, 2022 has declared an Interim Dividend of Re. 01 (Rupee One) per equity share of the face value of Rs. 10/- each i.e., at the rate of 10 % for the Financial Year 2022-2023. The company has fixed Friday, 30th December, 2022 as the Record Date for the purpose of payment of Interim Dividend, The Interim Dividend will be paid on or before 19th January, 2023.

For, Sarthak Metals Limited

Pratik Jair

Company Secretary



Fees: Rs.2.500/- (Study material in softcopy shall be provided Coordinator: 9971875996, 9953920498

Place : Bhilai (C.G.) Date: 20th December, 2022

TOI When it comes to higher recall,

That's the power of print. In addition to 70% higher recall, according to neuroscience research it's proven that print content is 21% easier to understand and more memorable than digital media. That is why, print content connects with our brain more efficiently and effectively. So, choose to read print. Choose The Times of India, India's most trusted news media brand.

Source: Study by TrueImpact (A Canadian neuromarketing firm)

THE TIMES OF INDIA CHANGE Begins Here

[खास खबर]

खास्य सेवाओं की रीढ़ हैं मितानिन बहनें - रेखचंद



श्रमबिन्द / जगदलपुर

लाक स्तरीय स्वास्थ्य पंचायत एवं जनसंवाद मितानिन सम्मेलन में संसदीय सचिव एवं विधायक जगदलपर रेखचंद जैन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जैन ने कहा कि मितानिन बहनों की सेवा भावना तमन करने योग्य है। कोरोना संक्रमण काल में जब पूरा देश घरों में बंद हो गया था, तब भी हमारी मितानिन बहनें घर – घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही थीं छन्होंने कहा कि हमारी बाकर लोगों को जागरूक कर रही थीं उन्होंने कहा कि हमारी मिसातिन यहनें स्वास्थ्य सेवाओं को रीड़ की हुन्नें हैं, जो सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए दिन रात काम करती हैं। हं संस्थाता प्रसब से लेकर घर - घर जाकर सर्वें करने का काम हमारी सहनें करती हैं। इनको सेवाओं का कोई मोल नहीं हैं। हमारी सरकार मितातिन वक्तें को मोगों पर सरकापुर्विपूर्वक विचार कर रही हैं, जो जल्द ही पूरी होगी। इस अवसर पर संस्थीय सचिव रेखार्च यैन के साथ नगर निगम की समापति विचार कर हिन्दा पंजाब करने करने करने साथ नगरा निगम की समापति कविता साहू, जिला पंचायत सदस्य धरम् राम मंडावी, उप सरपंच नियानार शिवेंदु ज्ञा, सुशीला ज्ञा, जिला महामंत्री गौरन नाग, विधि विभाग के जिलाध्यक्ष अवधेश झा, इंटक कांग्रेस के नाग, विशेष विभाग के जिलाज्यक्ष अवश्यश्च हो, इटक काइस क प्रदेश महासचिव विजय सिंह, विजाज्यक्ष कुत्तचीप सिंह भर्दीरिया, डॉ. महेश नाग, एस नीला, मनोज पांडेय, अशोक विश्वकर्मा, विलोध दीवान, प्रेम सुंदरी, श्यामवती, लवलीना, पर्यमंता, पुन्त देवांगन, कुलेक्ष्म, प्रकृषोत्तम, दिनो, चुच्चेबरी पाण्डेय, चित्ररेखा, लिमबती, तिलेधरी, सीमा पटेल समेत क्लाक की समस्त मितानिनें उपस्थित थीं।

माहरा समाज को भी जल्द मिलेगा आरक्षण का लाभ



श्रमबिन्दु / जगदलपुर

आरक्षण की सुविधा से वंचित माहरा समाज के लोगों को भी जल्द ही आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। बस्तर के सांसद दीपक बैज ने इस दिशा में प्रभावी कदम उठाया है।

द्यापक चन पहुँचा दिवा ने प्रमाया करता है। सांतर श्री बैंज को अनुवाई में महरा समाज के प्रतितिधि मंडल ने मंगलवार को अनुसुचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की सचिव अंत्रलि भावारा एवं भारत के महारजिस्ट्रार मृत्युंजय कुमार नारायण के साथ माहरा समाज के आरक्षण के मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा की। उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द ही इस मसले को सरकार के समक्ष रखेंगे ज्ञात हो की माहरा समाज के आरक्षण का मामला भारत सरकार के महा राजहार के पास से कई बार खारिज हो चुका था। लेकिन पिछले दिनों बस्तर सांसद दीपक बैज एवं माहरा समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर अपने पक्ष को पूर्व निर्देश की स्वाधित के प्रतिस्थान निर्देश की आपने पर्यापाम है कि महारजिष्टार व अनुसूचित जाति आयोग से अनुमोदित होकर प्रकरण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पास विभागीय प्रक्रिया में है। इस सहयोग के लि अनसचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला. महारजिष्टार मृत्युंजय कुमार को समाज एवं श्री बैज ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मसले को लेकर सांसद दीपक बैज जल्द ही समाजिक न्याय मंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान माहरा समाज के संभागीय अध्यक्ष शामू कश्यप, माहरा समाज कर्मचारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रविन्द्र नागवंशी, गिरीश कश्यप, लेखन बर्धल एवं रामकुमार नागुल उपस्थित थे।

बेलपुटी हायर सेकंडरी स्कूल की छात्राओं को साईकिलें वितरित



श्रमबिन्दु / जगदलपुर

बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं विधायक लखेश्रेर बघेल द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलपुटी की 26 छात्राओं को सरस्वती सायकल योजना के तहत साईकिलें वितरित की गईं। श्री बचेल ने एक छात्रा से सामन्य ज्ञान के प्रश्न पूछे। सही जवाब मिलने उन्होंने छात्रा को पुरसस्कृत किया। इस अवसर पर श्री बचेल ने कहा कि जब तक आप सीखेंगे, तब तक आप का विकास होता रहेगा। यदि आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, तो आप हर बाथा पार कर सकते हैं। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उन सपनों को साकार है। स्पन्त देखना बुरा बात नहीं है, लाकन जन सपना का साकार करने के लिए कार्य नहीं करना बूरी बात है। ग्राजार्थ एवं सरपंच ने स्कूल की विभिन्न समस्याओं से विभायक को अवरात कराया। विभायक ने हास्स संकंडिंग स्कूल में ज़म्बन एवं रांगमंच होतु 20 लाख रूपए देने की ग्रेषणा की छाआओं की समस्या को देखते हुए एक सायकल स्टैंड बनवाने की भी प्रोषणा की। संवाद की कड़ी को आगे बदाते हुए विभायक श्री बग्नेल ने कहा कि सभी छाओं को भी अपने जीवन में लक्ष्य का निर्भारण करना और अपनी पड़ाई के प्रति गंभीर रहना चाहिए। तभी से अपने जीवन में सफ्लता हासिल कर सकते हैं।

सी मार्ट के राशन से बना भोजन रास नहीं आ रहा विद्यार्थियों को

बस्तर। सी - मार्ट जगदलपर में मिलने वाले राशन और दीगर सामग्री की गुणवता पर अब सवाल उठने लगे हैं लोगों का कहना है कि सी मार्ट में प्राय भी वस्तुओं और राशन की कीमते लोकल बाजार के मुकाबले ज्यादा रहती हैं। वहीं उनकी गुणवत्ता भी हल्के स्तर की होती हैं। छात्रावासों, कन्या शिक्षा परिसरों और आश्रमों में सी मार्ट के राशन व अन्य सामग्री से बनने वाले भोजन से विद्यार्थी बिदकने लगे हैं। ऐसे भोजन को खाकर बीमार पड़ने की अपेक्षा विद्यार्थी भूखे पेट रहना ज्यादा बेहतर समझने लगे हैं। बावजूद आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकार्र आश्रमां, कन्या शिक्षा परिसरों और छात्रावासों के प्रभारियों को सी मार्ट से ही राशन तथा जरूरत के अन्य सामान खरीदने के लिए बाध्य कर रहे हैं।

सी मार्ट की स्थापना आम सा माट को स्थापना आम नगरिकों को वाजिब दरों पर अच्छी क्रालिटो का राशन एवं दूसरे सामान उपलब्ध कराने के नेक इरादे से की गई है, लेकिन हो रहा है उल्टा। सी मार्ट में जो राशन और अन्य सामान बेचे जा रहे हैं, वे लोकल बाजार की दुकानों की अपेक्षा महंगे तो होते ही हैं, उनकी गुणवत्ता भी बहुत ही निम्न स्तर की

सी मार्ट की सामग्री जबरिया भेजी जा रही आश्रमों और छात्रावासों में राशन और अन्य सामान की दरें ज्यादा, गुणवत्ता पर भी उठे सवाल



फिर भी आदिम जाति के अधिकारी कल्याण विभाग विभागीय कन्या शिक्षा परिसरों, आश्रमों एवं छात्रावासों में सी मार्ट से ही राशन तथा अन्य सामग्रियां खरीटने लिए कहा जा रहा है। इस आ की शिकायतें सामने आ रही हैं। जानकारी मिली है कि सी मार्ट से खरीदे गए राशन तथा अन्य सामान से बने भोजन को छात्र छात्राएं जरा भी वन भाजन को छात्र छात्राए जरा भी पसंद नहीं कर रहे हैं। घुन लग चने की सब्जी, घटिया दाल और स्तरहीन चावल को खाना इन विद्यार्थियों को नागवार गुजर रहा है। ऐसे घटिया भोजन को देखते ही विद्यार्थी बिदकने

परचनपाल में इसका एक ज्वलंत उदाहरण सामने आया है। परिसर की छात्राओं को सी मार्ट के राशन व अन्य जींसों से बनाया गया भोजन परोसा त्यौरियां चढ़ गई। छात्राओं ने ऐसे घटिया भोजन को खाने से साफड़ंकार करते हुए उसे फेंक दिया। बताया जाता है कि अधिक मुनाफे के चक्कर में सी मार्ट को घटिया क्वालिटी का राशन व अन्य सामानों की आपतिं की जाती है। अब ऐसे ही घटिया राशन व सामग्री खरीदने के लिए आश्रमों, कन्या शिक्षा परिसरों तथा खात्राचास अधीक्षकों को आदिवासी विकास शाखा

मजबर किया जा रहा है।

5 साल से नहीं बढ़ी शिष्यवृति

विगत 5 वर्षों से छात्रों के भोजन और दूसरी जरूरतों के सामानों के लिए शिष्यवृत्ति के रूप में महज एक हजार रु. ही दिया जा रहा है। पांच साल से शिष्यवृत्ति की राशि में थोड़ी सी भी वृद्धि नहीं हुई है। केवल एक हजार रु. में छात्रों को भोजन, नाश्ता, चिकित्सा एवं अन्य जरूरी सुविधाएं

चिकित्सा एवं अन्य जरूरा सुविधाए मृहैया कराने की व्यवस्था पांच साल से चली आ रही है। इन पांच सालों के दौरान दाल, आटा, चावल, तेल, साबुन, रसोई इंधन, दवाई समेत् दैनिक उपयोग की तमाम वस्तुओं की कीमतें पांच - सात पुणा बढ़ चुकी हैं। आज की इस भीषण महंगाई के दौर में इतनी सारी

अपनी मर्जी थोप रहे हैं अधिकारी

आदिम जाति कल्याण विभाग जगदलपुर के अधिकारी सी- मार्ट से छात्रावासों, कन्या शिक्षा परिसरों एवं आश्रमों के लिए राशन व अन्य सामग्री का उठाव करने का आदेश जारी कर रहे हैं। इसके कारण छात्रावासों और आश्रमी की संचालन व्यवस्था चरमरा गई है। छात्रावास अधीक्षक संघ सी-मार्ट से राशन व अन्य सामग्री की खरीदी बंद कराने हेतु उच्च अधिकारियों से कई बार गुहार लगा चुका है, लेकिन किसी भी अधिकारी द्वारा इस विषय पर कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है। अधिकारियों की यह मनमानी विभाग को भ्रष्टाचार की गर्त में धकेलती नजर आ रही है। जगदलपुर से आश्रमों और छात्रावासों तक सामग्री छोड़ने के किराये का भार भी छात्रावासों और आश्रमों को ही वहन करना पड़ता है। इसके अलावा सामग्रियों की दरों में भी काफी अंतर देखने को मिल रहा है। सामग्रियों की गुणवत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। सी- मार्ट की आड़ में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच के लिए कलेक्टर जगदलपुर से गुहार लगाई गई है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में लाई शैक्षणिक क्रांति : रेखचंद

अंग्रेजी माध्यम स्कूल जगदलपुर में आयोजित सरस्वती सायकल वितरण समारोह एवं आनंद मेला में मख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन । उन्होंने सरस्वती सायकल वितरण योजना के तहत 30 छात्राओं को साइकिल वितरण किया। आनंद मेला में स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लिया तथा बच्चों का उत्साहवर्धन किया कक्षा 6वीं के छात्र रेयान क्रॅशी ने मुख्य अतिथि



रेखचंद जैन को अपने हाथों से निर्मित पेंटिंग भेंट की। इस अवसर पर उपस्थित बच्चों को संबोधित करते हुए श्री जैन ने कहा की हमारे प्रदेश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र पर विशेष कृपा है। इस

क्षेत्र में चार स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल जगदलपुर, धरमपुरा दरभा एवं नानगुर में मुख्यमंत्री खुलवाए हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में अब निजी स्कूलों के

सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं। अगले सत्र से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कालेज भी आरंभ हो रहा है इसके अलावा स्वामी आत्मानंद आईटीआई के लिए भी राशि की व्यवस्था की गई है। पूर्व की सरकार में जहां स्कूल बंद हो रहे थे, हमारी सरकार में लगातार नए स्कूल खुल रहे हैं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने घोषणा की कि यदि कोई बच्चा 10वीं या 12वीं बोर्ड में प्रावीण्य सूची में आता है तो उसे 51 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस अवसर पर विधायक

जगदलपर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जगदलपुर एवं संसदाय साचव रखनंद जैन के साथ नगर निगम की संभापति कविता साहु, वरिष्ठ पार्षद कनिक फतिमा, पार्षद बलराम यादव, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री गौरनाथ नाग, विधि विभाग के जिलाध्यक्ष अवधेश ज्ञा, इंटक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विजय सिंह, क उपरा महासाचय विजय सिह, जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह भदौरिया, संजय पाणिग्रही, रामकृष्ण तिवारी, खंड शिक्षा अधिकारी मानसिंह भारद्वाज, बीआरसी गरुड़ मिश्रा, प्राचार्य मनीषा खत्री समेत शाला के शिक्षक,

डिमांड ड्राफ्ट के पचड़े में फंसे राशन दुकान संचालक हैं परेशान

श्रमबिन्दु / जगदलपुर

डीडी जमा होने में देरी से झेलनी पड़ती हैं तरह - तरह की मुसीबतें

वेयर हाउस के खातें में पैसा जमा न हो पाने पर नहीं पहुंचता राशन

दुकान संचालकों को हमेशा बनी रहती है नोटिस मिलने की टेशन

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के राश-सविज्ञानक विदारण प्रणाला। (पाडाएस) के सहने हुकान संबालकों को डिमांड हाम्पर के पद्धे ने वहीं टेंशन दे रखी है। समय पर डिमांड ड्राम्प्ट जमा कराने के बाद भी बेयर हाउस कारापीश्रम तक रक्तम मही पहुंच पाती या पिर तकनीकी खामी को वजह से वापस हो जाती है। वेयर हाउस से उन्हें कोटे का ग्रशन नहीं मिल पाता। ऐसे में संचालकों के को उपभोक्ताओं और प्रशासन की डांट डफ्ट सुननी पड़ती है। राशन दुकान संचालकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने लोहंडीगड़ा की एसडीएम माया नंद चंदा

रही दिकत को दूर करने की मांग की। राशन दुकान संचालक हर माह समय पर डिमांड ड्राफ्ट जमा कर देते हैं, मगर उसका समय रहते क्लियोंस नहीं हो पाता। ऐसे में उन्हें राशन का उद्यव करने में दिक्कत होती है। दुकान संचालकों को जहां उपभोक्ताओं की खरी खोटी सुननी पड़ती है, वहीं प्रशासन से मिलने वाला नोटिस उनकी टेंशन को और भी बढ़ा देता है दकान संचालकों विकेताओं का एक दल सोमवार को लोहंडीगुड़ा एसडीएम माया नंद चंदा से मुलाकात करने उनके दफ्तर पहुंचा था। इन राशन विक्रेताओं की शिकायत सीजी स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ थी राशन दुकान संचालकों ने ज्ञापन में जानकारी दी है कि शासन द्वारा संचालित प्रत्येक राशन दुकान में प्रति माह बँक से एनईएफ्टी और डीडी के जरिए तयशुदा राशि जमा की जाती है। मगर जमा की गई राशि वेयर हाउस कारपोरेशन के बैंक अकाउंट में नहीं पहुंच पाती है। तब वेयर हाउस से कोटे के

जाता इसकी वजह से समय - समय पर राशन विकेताओं के खिलाफब्लॉक स्तर पर नोटिस जारी कर दिया जाता है। वहीं समय पर राशन न मिलने से नाराज उपभोकाओं से भी उन्हें खरी खोटी ानी पड़ती है। जिसके चलते दुकान संचाल को खासी दिकतों का सामना करना पड़ता है। राशि नहीं जाने की वजह से वेयरहाउस से संबंधित राशन दुकान में राशन नहीं भेजा जाता, जिससे अगले माह के वितरण और भंडारण में भारी समस्या होती है। तकनीकी खामी की वजह से हितग्राहियों को समय पर राशन न मिलने की शिकायत आज इन राशन विकेताओं ने एसडीएम से मिलकर की।

क्या है एनईएफ्टी, डीडी की प्रक्रिया?

एनईएफ्टी और डीडी के बारे में राशन विऋेता गयत राम कश्यप ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से हमें एक माह का राशन क्रेडिट में मिलता है, जिसकी राशि हमें अगले माह की 10 तारीख तक एनईएफ्टी या डीडी के माध्यम से

के खाते में जमा करनी होती है। वहां से वह राष्ट्रि वेयर हाउस के पास जाती है। तकनीकी खामी की वजह से हर बार वेयर हाउस तक रकम पहुंचने में देरी होती है या फिर राशि वापस आ जाती है। इसी की शिकायत को लेकर हम लोगों ने एसडीएम जापन साँपा है।

दूर की जाएगी दिक्कत

राशन विक्रेताओं की समस्याओं को हम 🕂 कलेक्टर तक पहुँचाएँगे। कोशिश की जाएगी कि दुकान संचालकों द्वारा जब भी पैसा पटाया जाए तो वह तत्काल क्लियर हो जाए। आजकल जब सबकुछ ऑनलाइन है, तब इनकी राशि भी तुरंत जमा होनी चाहिए। रायपुर या जगदलपुर से जो विलंब हो रहा है, उसे कलेक्टर के संज्ञान में लाया जाएगा।

... - माया नंद चंद्रा अनुविभागीय दंडाधिकारी, लोहंडीगुड़ा

सरेआम शराब पीते १० गिरफ्तार

रायपर। राजधानी पुलिस ने नशेडियों के खिलाफ अभियान संबंधुर राजधान पुरस्त न नशाङ्क्य के खालाक आन्धान चलाकर सरेआम शराब पीते 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार मोबा पुलिस ने दलदल सिवनी आम रोड में सरेआम शराब पीते आरोपी आकाश यादव 18 वर्ष को गिरफ्तार किया है। इसी तरह खमतराई पुलिस ने आरोपी संजय साव 25 वर्ष व राजेश साह 35 वर्ष को गिरफ्तार

SARTHAK METALS LIMITED

fice: B.B.C Celeny, G. E. Rosel, Kharsipar, Bhilai - 490011, Ci बी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 30, 42 और 43 के अनुसार, हर ।पको सुवित करना चाहते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल ने 20 दिसंबर, 2022 क पानवा सुवाल करना चाहत है कि करना कि निवक्त करता न 20 दिस्तव, 2022 के विद्याल, 2022 के विद्याल, 2022 के विद्याल (2022 के विद्याल करना चाहती कर विद्याल करना कि का क्षेत्र के किया मुख्य के कित हुम्बल कित हुम्बल कितिक के कित हुम्बल कितिक के कित हुम्बल कितिक के कित हुम्बल कित हुम्बल कितिक के कित हुम्बल कितिक के कित हुम्बल कित हुम्बल कितिक के कित हुम्बल कितिक के कित हुम्बल कित हुम्बल कितिक के कित हुम्बल कितिक के कित हुम्बल हुम्बल कित हुम्बल हुम हुम्बल हुम्बल हुम्बल हुम हुम्बल हुम्बल हुम हुम्बल हुम्बल हुम ह

नाम परिवर्तन

शादी के पूर्व मेरा नाम केशरवानी सानू राजू (सर्टिफिकेट में) था अब शादी के बाद मेरा नाम श्रीमती सानू राजृ प्रसाद केशरवानी हो गया है। समस्त शासकीय अशासकीय रिकार्ड में SMT. SANU RAJU PRASAD KESHARWANI पति गौरव कुमार केशरी निवासी नगर रामानुजगंज वार्ड 15 पावर हाउस रोड जिला बलरामपुर (छ.ग.) के

नाम से जाना जाए। श्रीमती सानू राज् प्रसाद केशरवानी

कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड-बेमेतरा (छ.ग.)

// संशोधन सूचना //

इस कार्यालय का ई-प्रोक्यूरमेंट द्वितीय निविदा सूचना क्र. 221, 222, 223, 224, 226, 226 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 (सिस्टम मं. 116349, 116352, 116353, 116354 116356, 116357, 116358, 116359, 116360, 116361, 116362, 116363, 116364, 116365) एवं प्रथम निविदा सूचना क. 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244/लेशा/का.अभि /लोस्वायांखण्ड/2022, दिनांक 06.12.2022 (सिस्टम मं. 116368, 116369, 116371, 116372, 116373 . 116374, 116375, 116376, 116377, 116378) को आमंत्रित किया गया था। प्रथम निविदा सूचना क. 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253/लेशा./का.अमि

्रेलोत्वायांकण्ड, 2022, दिनोक 07.12.2022 (सिस्टम नं 116557, 116558, 116569, 116561, 116562, 116563, 116564, 116565, 116567) को आमंत्रित किया गया था। अपरिहार्य कारणों से उक्त निविदा के दिनांक में निमानुसार संशोधन किया जाता है।

; 29.12.2022 5:30 PM 2 Physical Doc Submission End Date 03.01.2023 5:30 PM 3 Bid Open Date for Envelope "A" & "B" (Scheduled) :

शेष शर्ते पूर्ववत है। (पूर्व जी. नं.- 96536, 96537, 96538)

कायभारतः जान्यः लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड बेमेतरा (छ.ग.)